

थाना सहसवान पुलिस द्वारा अवैध एटीएमकार्डों का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करने वाले दो अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण के कब्जे से 35 एटीएम कार्ड, 01- कार आई-20 तथा 20 हजार रुपये की नगदी बरामद ।

### कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के आदेशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशानुसार तथा क्षेत्राधिकारी सहसवान के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 29/06/2022 को थाना सहसवान पुलिस द्वारा प्रमोद इण्टर कॉलेज के पीएनबी के एटीएम से द्वारा मुखविर की सूचना के आधार पर थाना सहसवान पुलिस द्वारा दो शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में स्थानीय थाना, सहसवान पर मु0अ0सं0 286/22 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414/420 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### पूछताछ का विवरण

अभियुक्त गणों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम काफी दिनों से यह काम करते हैं । हम दोनों एटीएम मशीन के पास खड़े हो जाते हैं और यह देखते हैं कि कोई महिला , बुर्जुग या ऐसा व्यक्ति जो एटीएम कम चलाना जानता है के पैसे निकालने एटीएम पर आने पर किसी बहाने से पहले उसका पासवर्ड देख लेते हैं । और फिर धोखा देकर उसका एटीएम कार्ड बदल देते हैं । और अपने पास रखा उसी बैंक का एटीएम कार्ड उसे थमा देते हैं । उसके बाद किसी ऑभी एटीएम से बदले गये कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं । हम लोग मथुरा से एक बार में दो तीन दिन के लिए निकलते हैं । और लगातार दो तीन दिन यह काम करते हैं । उसके बाद कुछ दिनों के लिये हम लोग शान्त बैठ जाते हैं । हमने बुलन्दशहर , बरेली , कासंगज , मथुरा आदि जिलों में कई महीनों से लगातार यह कार्य कर रहे हैं । जिससे हम लोगों को अच्छे पैसे निकालने को मिल जाते हैं । अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं । आज हम लोग बरेली से सहसवान होकर जा रहे थे तो सहसवान में पीएनबी के एटीएम में पैसे निकाले की फिराक में थे कि हमें सहसवान पुलिस द्वारा पकड लिया गया ।

### गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय

प्रमोद इण्टर कालेज पीएनबी एटीएम से दिनांक 28/06/2022 समय करीब 17.15 बजे

## गिरफ्तार अभियुक्तगण

(1) अवनीश गुप्ता पुत्र नवीन गुप्ता निवासी मोहल्ला किशोरी नगर बिरला मंदिर थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा ।

(2) सन्नी पुत्र शिवनारायन नि0 मौहल्ला किशोरी नगर बिरला मन्दिर थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा ।

## बरामदगी का विवरण

1- 35 एटीएम कार्ड , 20.000 रुपये नगद, 01 कार आई-20 ।

## आपराधिक इतिहास-

1- अवनीश गुप्ता पुत्र नवीन गुप्ता निवासी मोहल्ला किशोरी नगर बिरला मंदिर थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा ।

1- मु0अ0स0286/22 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414/420 भादवि थाना सहसवान जनपद बदायूँ ।

2- मु0अ0स0 132/16 धारा 380/411/379 भादवि थाना सौरो जनपद कासगंज ।

3- मु0अ0स0 147/2019 धारा 420 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद इटावा ।

4- मु0अ0सं0 205/2019 धारा 411/420 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना सिविल लाईन जनपद इटावा ।

5- मु0अ0सं0 207/2019 धारा 307 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद इटावा ।

6- मु0अ0सं0 208/2019 धारा 3/25 ए एक्ट थाना सिविल लाईन जनपद इटावा ।

व अन्य थानो से अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

## आपराधिक इतिहास -

2- सन्नी पुत्र शिवनारायन नि0 मौहल्ला किशोरी नगर बिरला मन्दिर थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा ।

- 1- मु0अ0स0286/22 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414/420 भादवि थाना सहसवान जनपद बदायूँ ।
- 2- मु0अ0सं0 186/2021 धारा 379/420 भादवि थाना शाहिबाबाद जनपद गाजियाबाद ।
- 3- मु0अ0स0 188/2021 धारा 4/25 ए एक्ट थाना शाहिबाबाद जनपद गाजियाबाद ।
- 4- मु0अ0सं0 190/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना शाहिबाबाद जनपद गाजियाबाद व अन्य थानो से अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1- प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला
- 2- म0उ0नि0 श्रीमती सरिता रानी
- 3- का0 2048 नदीम अहमद
- 4- का0 1834 राहुल कुमार

सोशल मीडिया सैल,

जनपद बदायूँ ।